



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2009 (ज्येष्ठ 9, 1931)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2009 (JYAISTHA 9, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 13 मई 2009

सं. ए. 22012/1/2009/पीएमए—प्रधान मंत्री के निजी सचिव श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी, आई.ए.एस. (जे.एच. : 1987) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सात वर्षों के लिए अर्थात् दिनांक 26.09.2011 तक अनुमोदित किया गया है।

राजिन्दर शर्मा, अवर सचिव

के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है :—

- (i) श्री हरीश कांडपाल, वरिष्ठ अधिशासी सहायक
- (ii) श्री बी. फणि सुंदर, निजी सचिव

2. उपर्युक्त नियुक्तियां वर्तमान माननीय सभापति, राज्य सभा के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएंगी।

चित्रा जी, अधिशासी अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2009

सं. आरएस/6/1/2009/20—कार्मिक—राज्य सभा सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारी, जिनकी सेवाएं 11 जनवरी, 2008 से भारत के उप-राष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु उप-राष्ट्रपति सचिवालय को उपलब्ध कराई गई थीं, को 1 मई, 2009 के पूर्वोक्त से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर माननीय सभापति, राज्य सभा के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600—39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु.

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 24 अप्रैल 2009

सं. ए. 12019/1/2007—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में डॉ. के. राधाकृष्णन विशिष्ट वैज्ञानिक और निदेशक को शीर्ष वेतनमान रु. 80,000/- (नियत) में दिनांक अप्रैल 16, 2009 से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2009

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 2009

सं. ए. 19014/29/2006-प्रशा.1--वर्तमान में 80,000/- रु. (नियत) के वेतन में इस मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत श्रीमती ललिता कुमार, आईएएस (तमिलनाडु-74), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 मई 2009

सं. ए-19/जी.ए/93--श्री एन. के. बार, पुस्तकालय व सूचना अधिकारी की भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति की अवधि विद्यमान निबंधन व शर्तों पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- तदनुसार ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के साथ एतद्वारा दिनांक 31.05.2009 तक बढ़ दी गई है।

आदेश से।

सीता राम, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2009

सं. ए. 32015/7/2005-प्रशा.1V-(वि.का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2009-सीएस-II के अनुसार, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्री राकेश कुमार (अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "बी"/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2005, अनुक्रमांक 1181, रैंक सं. 24) को दिनांक 16 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से उसी विभाग में नियमित आधार पर ग्रेड वेतन 4,800/- रु. सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में आशुलिपिक ग्रेड "ए व बी" (सम्मिलित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

सं. ए. 32015/7/2005-प्रशा.1V-(वि.का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2009-सीएस-II के अनुसार, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्री वी. रामासुब्रमण्यन (अनुक्रमांक 1314, रैंक सं. 39, अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "बी"/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2005) को दिनांक 16 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से इस विभाग में नियमित आधार पर रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड पी.बी.-2 में रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित आशुलिपिक ग्रेड "ए व बी" (सम्मिलित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

सं. ए. 32012/4/2008-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, वर्तमान में तद्विध आधार पर उप विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक विधि सलाहकारों को दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक और दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री एस. एन. टंडन द्वारा रिट याचिका सं. 4598/07 और 4241/08 तथा श्री जे. टी. सुलक्षण राव द्वारा रिट याचिका सं. 1385/08 के अंतिम निर्णय के अधीन, नीचे दिए गए क्रम में विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से रु. 7,600/- ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड में उप विधि सलाहकार के पद (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-III) पर नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री एस. आर. मिश्र

(ii) श्रीमती जोया हाडके

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मई 2009

सं. के. 11019/2/2009-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री इशरत मसरूर कुदूसी को, न्यायविद् डॉ. श्री बलबीर सिंह चौहान की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तारीख से, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

सं. के. 11019/2/2009-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री रतन चन्द गांधी को, न्यायविद् दीपक वर्मा की नियुक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तारीख से, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

सं. के. 13024/1/2009-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, श्री पेरिया वीड खादिर मीरान बरकत अली को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. 14016/11/2008-यू टी एस-I--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) ग्रेड में दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए (पूर्व संशोधित) के वतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रेन्ज संख्या	जन्म तिथि
सर्वश्री			
1.	वीरेन्द्र कुमार	डी-1/686	05.11.1954
2.	कमल कुमार	डी-1/690	03.07.1956
3.	शाकिर हसन	डी-1/691	04.03.1954
4.	नरेन्द्र कुमार	डी-1/692	01.07.1952
5.	जय भगवान	डी-1/359	10.03.1957
6.	अमरीक सिंह	डी-1/294	15.09.1052

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर लिखित छह निरीक्षकों सी डब्ल्यू पी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अध्यधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश लागू करने से पहले दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे कि उपर्युक्त निरीक्षक सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

दिनांक 19 मई 2009

सं. 14016/11/2008-यू टी एस-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) ग्रेड में दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए (पूर्व संशोधित) के वतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रेन्ज संख्या	जन्म तिथि
सर्वश्री			
1.	जिले सिंह	डी-1/693	04.10.1954
2.	वेद प्रकाश	डी-1/708	01.01.1955
3.	नव रतन	डी-1/337	03.02.1955
4.	रघुबीर प्रसाद	डी-1/913	06.07.1058

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर लिखित चार निरीक्षकों सी डब्ल्यू पी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अध्यधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश लागू करने से पहले दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे कि उपर्युक्त निरीक्षक सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2009

सं. आई-14011/18/2008-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 12/5/2009 को चयन समिति की दिनांक 19/12/2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त ए.जी.एम.यू. संवर्ग में वर्ष 2008 में एक मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु मिजोरम पुलिस सेवा के अधिकारी श्री एल. टी. हरांगचल (जन्म तिथि 01/02/1957) का नाम शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/18/2008-आईपीएस-1 (II)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य पुलिस सेवा के सदस्य श्री एल. टी. हरांगचल (जन्म तिथि 01/03/1957) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवर्तित पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त ए.जी.एम.यू. संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2009

सं. 12013/4/2007-रा.भा. (का.-1)--राष्ट्रपति, श्री राकेश कुमार को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 6 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त के आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धर्म सिंह, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2009

सं. ए. 32015/8/2006-संवर्ग (प्रशा. IV)--इस विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के का. आदेश सं. 32014/7/2006-संवर्ग के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के वर्ष 2005 की चयन सूची में उनको शामिल करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के तौर पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति का तरीका	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री वख्तराम दामोर	एस.क्यू/2005	1.7.2005
2.	श्री एडमोन्ड एक्सलाएक्सो	एस.क्यू/2005	1.7.2005
3.	श्री सबील किन्डो	एस.क्यू/2005	1.7.2005

2. उपर्युक्त अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वेतन आहरित करेंगे।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2009

सं. 20/एस/613-प्रशा. I--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2004-के.से. II के

अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.) के प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) को, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संवर्ग में पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- जमा 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन ढांचे में नियमित तौर पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	चयन सूची
1.	श्री एस. पलानीस्वामी	2003
2.	श्री ए. एस. बरार	2004

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2009

सं. 11019/05/2009-अ.भ.से.-III--राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि यह मान लिया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य और मूलतः बिहार : 2004) की श्रीमती चेरी मलिक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से अखित भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1995 के नियम 7(2) की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/09/2008-अ.भ.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा नियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती गुन्जन	2004	06.09.2006
2.	श्री परिमल सिंह	2004	06.09.2006
3.	श्री विक्रम कुमार	2004	06.09.2006
4.	श्री वाघ्मारे विजय बालकृष्णा	2004	06.09.2006
5.	श्री रामस्वामी एन.	2004	06.09.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2009

सं. 14012/08/2008-अ.भा.सं.-III.--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री हृदयाकर श्रवण प्रमोद	2005	22.08.2007
2.	श्री विपिन शर्मा	2005	22.08.2007
3.	श्री राहुल रंजन महिवाल	2005	22.08.2007

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, मई 2009

सं. 12018/1/2008-प्रशासन-I.--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :--

- लघु शीर्ष और आरंभ --(i) इन नियमों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) समूह 'ग' (तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2009 के नाम से जाना जाएगा।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- लागू होना --ये नियम इन नियमों संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान यहां संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट जैसे ही होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि-उक्त पद से संबंधित भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट जैसे ही होंगे।
- अयोग्यता-जिस व्यक्ति ने

(क) जैसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह का करार किया हो जिसकी जीवित पत्नी/पति है, अथवा

(ख) स्वयं की जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी व्यक्ति से या विवाह का करार किया किया हो

तो वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस बावत संतुष्ट है कि विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति- जहां केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक और अपरिहस्य है तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट का आदेश दे सकती है।

7. शर्त- इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मुहैया जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा के संबंध में छूट और अन्य छूट को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूचित

- | | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) |
| 2. पदों की संख्या | *एक (2009)
*कार्य की माचा पर निर्भर करते हुए परिवर्तनशील |
| 3. वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'/अराजपत्रित/गैर सचिबीय। |
| 4. वेतनमान | पी.बी.1 रु. 5,200--20,200/- त्र.जी. पी. रु. 1,900/- |
| 5. चयन अथवा गैर चयन पद | लागू नहीं |
| 6. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के संबंधित वर्षों का लाभ अनुमत्य है | लागू नहीं |
| 7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | अधिकतम 25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट)

नोट : भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख ही आयु सीमा गणना की तारीख भी होगी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा गणना की तारीख वही होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने का कहा जाता है। |
| 8. सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं | अनिवार्य :
(i) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। |

(ii) मोटर के काम करने का ज्ञान
(अभ्यर्थी को गाड़ी में आई मामूली
खराबी को ठीक करने में सक्षम
होना चाहिए)

(iii) मोटर कार चलाने का
कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव
होना चाहिए)

(iv) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

वांछनीय :

(i) होम गार्ड/सिविल वालंटियर्स के
रूप में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव।

नोट : यदि चयन के किसी भी
चरण में सक्षम अधिकारी का यह
मत हो कि पर्याप्त संख्या में
अभ्यर्थी इनके लिए आरक्षित
रिक्तियों के भरने के लिए उपलब्ध
नहीं हैं तो सक्षम प्राधिकारी
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के मामले में अनुभव
के संबंध में योग्यता में छूट देने
का अधिकार है।

9. क्या सीधी भर्ती के
लिए निर्धारित आयु
और शैक्षिक योग्यताएं,
पदोन्नत व्यक्तियों के
मामले में भी लागू होगी

10. परीक्षा की अवधि,
यदि कोई हो

11. क्या भर्ती का तरीका
सीधी भर्ती द्वारा अथवा
पदोन्नति द्वारा अथवा
प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण
द्वारा और विभिन्न
तरीकों द्वारा भरी जाने
वाली रिक्तियों की
प्रतिशतता द्वारा होगा।

12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
द्वारा भर्ती के मामले में
वह आमेलन ग्रेड
जिसमें से पदोन्नति/
प्रतिनियुक्ति की जानी
है।

आमेलन
पेंशन और पेंशनभेगी कल्याण विभाग के
नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और
समूह घ के कर्मचारियों में से जिनके पास
मोटर कार चलाने की जांच करने वाली
ड्राइविंग लाइसेंस हो; ऐसा न होने पर केन्द्र
सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित
आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण

करने वाले अथवा नियमित समूह 'घ'
कर्मचारियों में से जो स्तम्भ 8 में वर्णित
आवश्यक योग्यताएं रखते हों।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

वे सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की
अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं
अथवा स्थानांतरित होने वाले हों और
निर्धारित अनुभव और योग्यताएं रखते
हों, पर भी विचार किया जाएगा।
ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक
प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस
तारीख को वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त
किए जाने वाले हैं; उसके बाद उन्हें
पुनर्नियुक्ति पर रखा जाएगा : (केन्द्र
सरकार के उसी अथवा किया अन्य
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक
पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में
प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति
की अवधि असामान्यतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी)

13. यदि कोई डी.सी.पी. है
तो इसका संघटन क्या
है।

अवर सचिव (प्रशा.), अन्य अवर सचिव
और अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II)

14. वे परिस्थितियां जिनमें
भर्ती करने हेतु संघ
लोक सेवा आयोग से
परामर्श किया जाना है।

लागू नहीं

बी. के. वधवा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मार्च 2009

सं. क्यु/पी.ए-3/19/2009.--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.
से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01,
मार्च, 2009 के पूर्वा, से इस सेवा के ग्रेड-III स्थानापन्न रूप से कार्य करने
के लिए नियुक्त करती हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री योगेश चन्द्र नारंग	भा.वि.से.का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से.के. ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से.
का ग्रेड-IV में 01.03.2009 के पूर्वा. से कार्यभार त्याग दिया है और उसी
तारीख के पूर्वा. से भा.वि.से.का ग्रेड-IV में अपने पद का भार कार्यभार
ग्रहण कर लिया है।

सं. क्यु/पी.ए-1/20/2009.--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01, मार्च, 2009 के पूर्वा, से इस सेवा के ग्रेड-II स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री महेश सचदेव	भा.वि.से.का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से.के. ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. का ग्रेड-III में 01.03.2009 के पूर्वा. से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वा. से भा.वि.से.का ग्रेड-II में अपने पद का भार कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 30 मार्च 2009

सं. क्यु/पी.ए-1/21/2009.--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 20, मार्च, 2009 के पूर्वा, से इस सेवा के ग्रेड-III स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री एस. एन. रे	भा.वि.से.का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से.के. ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. का ग्रेड-IV में 01.03.2009 के पूर्वा. से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वा. से भा.वि.से.का ग्रेड-III में अपने पद का भार कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक, 1 मई 2009

सं. क्यु/पी.ए-1/24/2009.--अधिवाषिता की आयु प्राप्त होने पर श्री केदारकथ पाथरोज अर्नेस्ट, उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड से 30 अप्रैल 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

सं. क्यु/पी.ए-1/22/2009.--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01,

मई, 2009 के पूर्वा, से इस सेवा के ग्रेड-III स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री सी. गुरुराज राव	भा.वि.से.का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से.के. ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. का ग्रेड-IV में 01.05.2009 के पूर्वा. से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वा. से भा.वि.से.का ग्रेड-III में अपने पद का भार कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक, 4 मई 2009

सं. क्यु/पी.ए-1/23/2009.--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01, मई, 2009 के पूर्वा, से इस सेवा के ग्रेड-II स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री रजत साहा	भा.वि.से.का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से.के. ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. का ग्रेड-III में 01.05.2009 के पूर्वा. से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वा. से भा.वि.से.का ग्रेड-II में अपने पद का भार कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक, 12 मई 2009

सं. क्यु/पी.ए-II/6614/24/2005.--भारत के राजदूतावास, स्टॉकहोम में प्रथम सचिव श्री रघुनाथ मिश्रा अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक, 13 मई 2009

सं. क्यु/पी.ए-II/6614/9/2006.--भारत के राजदूतावास, फ्रैंकफर्ट में कौंसुल श्री गुरदीप सिंह वरवाल अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मार्च, 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा (ख) वरिष्ठ ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफएसपी)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2009

सं. 29 : (फा. सं. ए. 19012/6/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री एम. सतीश कुमार रेड्डी, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 93) को दिनांक 08.04.2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. 30 : (फा. सं. ए. 19012/7/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री रमण चोपड़ा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 93) को दिनांक 08.04.2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 अप्रैल 2009

सं. 31 : (फा. सं. ए. 19013/04/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री सत्येन्द्र माथुरिया, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 01) को दिनांक 02.04.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 32 : (फा. सं. ए. 19013/04/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 2004) को दिनांक 01.04.2009 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 33 : (फा. सं. ए. 19013/6/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री के. एस. वी. वी. प्रसाद भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 2001) को दिनांक 01.04.2009 (अपराह्न) से अथवा अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2009

सं. 32 : (फा. सं. ए. 19013/05/2009-प्रशा.1)---दिनांक 27 अप्रैल, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री संजीव सिंह, तकनीकी अधिकारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट को 01.04.2009 (अपराह्न) के स्थान पर प्रतिस्थापित कर "01.04.2009 (पूर्वाह्न)" पढ़ा जाए।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 33 : (फा. सं. ए. 19013/06/2009-प्रशा.1)---दिनांक 27 अप्रैल, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. एस. वी. वी. प्रसाद, तकनीकी अधिकारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट को 01.04.2009 (अपराह्न) के स्थान पर प्रतिस्थापित कर "01.04.2009 (पूर्वाह्न)" पढ़ा जाए।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 34 : (फा. सं. ए. 19013/03/2009-प्रशा.1)---भारत के राष्ट्रपति, श्री समर नंदा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शु. एवं के.उ.शु. : 04) को दिनांक 06.04.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2009

सं. 5/2009 : (फा. सं. ए. 32018/02/2009-प्रशा. 1क)---व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग के दिनांक 25 मार्च, 2009 के कार्यालय आदेश सं. ए-12025/6/2005-सी ए एस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.3.2009 के कार्यालय आदेश सं. 5/2/2009-सी एस-II के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के आशुलिपिक ग्रेड सी, श्री रमेश चंद्र एवं श्री संजय कुमार (अनुसूचित जाति) को चयन सूची वर्ष 2005 के प्रति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के आशुलिपिक के पद ग्रेड क एवं ख (विलयित) में दिनांक 30.3.2009 से घेतन बैंड-2 रुपये 9,300---34,800+4,800/- (ग्रेड घेतन) में नियुक्त करते हैं।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2009

सं. ए. 19011/15/2008-प्रशा. 2---राष्ट्रपति, वर्तमान में सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) श्री अशोक चावला, भा.प्र.से. (गुजरात : 73) को 11 मई, 2009 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) नियुक्त करते हैं।

सागर मेहरा, उप सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2009

सं. ए. 19011/291/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 01 मई 2009 के आदेश सं. 18/7/2009-ई-(एसएम-1) के अनुसरण में, श्री अशोक चावला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 73), सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने 01 मई, 2009 के अपराह्न से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2009

सं. ए. 12023/2/2004-प्रशा. II--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से दिनांक 31.3.2009 के आदेश सं. 12016/2/2009-एस.एस.एस. के द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I पर कार्यरत श्री हरीश्वर के. को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में दिनांक 4.5.2009 के पूर्वाह्न से 4,600/- रुपए ग्रेड वेतन के 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 में वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मई 2009

सं. 9/3/2099-प्रशासन.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 07.05.2008-सीएस.-I के साथ पठित व्यय विभाग के दिनांक 30.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-32014/1/2099-सीएस के अनुसार में, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक श्री के. सी. लोहानी को 12.05.2009 के पूर्वाह्न से पीबी-2 में, 93,00-34,800 + ग्रेड पे 48,00 रुपये के वेतनमान में विनिवेश विभाग में अनुभाग (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री के. सी. लोहानी की तदर्थ पदोन्नति प्रारम्भ में 30.06.2009 तक अथवा आगामी आदेश होने तक और निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी :--

- (क) अल्पकालिक व्यवस्था होने के कारण इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा;
- (ख) यह तदर्थ नियुक्ति, वरीयता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अधिकारी के उपलब्ध हो जाने तक या आगामी आदेश होने जारी रहेगी।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2009

सं. ए. 12023/12/2005-प्रशा.IV--न्यायमूर्ति श्री ओ. पी. द्विवेदी ने अपना कार्यालय पूरा करने के पश्चात् दिनांक 31 मार्च, 2009 के अपराह्न में एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

बी. पी. बिमल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मई 2009

सं. पीएफजी (958)/2009-प्रशा.-I--सीएसएसएस के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 में अर्हता प्राप्त करने तथा डीओपीटी के दिनांक 16.03.2009 के का. ज्ञा. सं.-5/2/2009-सीएस-II के द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए नामित होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमति मंजीत गुप्ता, इस मंत्रालय के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 16.03.2009 के पूर्वाह्न से सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. पीएफजी (959)/2009-प्रशा.-I--सीएसएसएस के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 में अर्हता प्राप्त करने तथा डीओपीटी के दिनांक 16.03.2009 के का. ज्ञा. सं.-5/2/2009-सीएस-II के द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए नामित होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री हरिषिकेश श्रीवास्तव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 20.04.2009 के अपराह्न से सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2009

सं. 1/2009 फां सं. ए-12022/25/2007-ई-IV--राष्ट्रपति द्वारा श्री एम. एस. राव, भा.प्र.से. (एम : 87) को वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन, विशाखापत्तनम में विकास आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में 37,700-67,000/-रुपये के वेतन बैंड (पीबी-4) जमा 10,000/-रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 27 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त हो, नियुक्त किया जाता है।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2009

सं. ए-11016/1/2006-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.02.2008 के आदेश सं. 231/27/2006-सी.एस.-I (डी) के अनुसरण में श्री अनिल कपूर को कोयला मंत्रालय में सीएसएस संवर्ग में 05 मई, 2009 के पूर्वाह्न से निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2009

सं. ए-12025/15/2006-सी.एच.एस.III.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विकास मल्होत्रा को दिनांक 07.12.2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में कर्ण-नासा-कंठ विज्ञापन की विशिष्टता में प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/10/2005-सी.एच.एस.III.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रवि मेहरे को दिनांक 07.09.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान की विशिष्टता में प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2009

सं. ए-12025/47/2007-सी.एच.एस.III.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (सुश्री) शारदा पात्रा को दिनांक 05.03.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2009

सं. ए-12025/47/2007-सी.एच.एस.III.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अरुण कुमार को दिनांक 15 अक्टूबर 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल रोग शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2009

सं. ए-38012/6/2008-प्रशासन-I.--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप प्रोफेसर आर. शम्बाशिव राव, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 30.04.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालडा
उप निदेशक प्रशासन (आर. के. के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2009

सं. 4-3/2008-विस्तार.--राष्ट्रपति, श्रीमति सविता वशिष्ठ, सहायक विस्तार अधिकारी को विस्तार निदेशालय में 8,000-275-13,500 (पूर्व संशोधित) रुपये के वेतनमान मकं विस्तार अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित कौं पद पर 26 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डिम्पल वर्मा, निदेशक (विस्तार)

पशु-पालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग
केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान

कोच्चिन-682016, दिनांक 5 अगस्त 2008

सेवा समाप्ति सूचना

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवायें (अस्थायी सेवा नियम) 5(1) के तहत श्री जी. रंजित, गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (मत्स्ययन प्रौद्योगिकी) के रूप में पुर्ननामित] की सेवा समाप्त करने की नोटिस का प्रकाशन-संबंधित।

सं. 6-12/2007 प्रशा.--केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (म. प्रौ.) के रूप में पुर्ननामित] के पद पर कार्यरत श्री जी. रंजित एक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमानित लिए बिना 23.07.2007 से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। ज्ञापन के जरिए बारंबार उपदेश के बावजूद श्री जी रंजित ने न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और न ही कार्य ग्रहण किया है। लंबी अनुपस्थिति के परिणामों की सूचना उन्हें दी गई थी जिससे कि अनुदेशों का अनुपालन करते हुए कार्य ग्रहण करने का पर्याप्त मौका भी उन्हें दिया गया था। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार कार्यालय ज्ञापन संख्या 6-2/2007 प्रशा. डिपसंक 01. 07.2008 के जरिए यह समाप्ति सूचना दी गई थी कि यह नोटिस जारी किए एक महीना समाप्त होने की तारी या जैसी स्थिति हो, उनकी सेवायें समाप्त की जाएगी। यह नोटिस पंजीकृत डाक से भेजी गई थी। लेकिन इस टिप्पणी से साथ यह वापस प्राप्त हुई कि 'प्रेषित बाह्य स्थान में है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सिविल सेवायें (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारी के मुताबिक अधोहस्ताक्षरी यह निर्णय लेते हैं कि इस समाप्ति सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने

की अवधि पूरा होने की तारीख से श्री जी. रंजित, गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (मत्स्ययज्ञ प्रौद्योगिकी) के रूप में पुर्ननामित] की सेवायें समाप्त की जाएंगी।

जी. एच. मनिकफान, निदेशक
(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2009

सं. 1-1/2009-एसआई/एस. --नियुक्ति संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति की सिफारिशों (कार्मिक एवं प्रतिक्षण विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 2009 के आदेश सं. 4/43/20008-इओ (एसएम-1) के संदर्भ में) के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (एमटी : 80) को वेतन बैंड 37,400-67,000/- रु. (पीबी-4) तथा ग्रेड वेतन 10000/- रु. में संयुक्त सचिव के पद पर 1 मई 2009 (पूर्वाह्न) या उक्त पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बी. एल. मीना, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2009

सं. 17016/17/2008-एससीडी-IV.--राष्ट्रपति, श्री टी. टीथन, आईए एंड एस (83) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 15.04.2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2009

सं. 20013/2/2008-बीसी-II.--राष्ट्रपति, श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, आइएफएस (जम्मु-कश्मीर : 8) को 37,400 रुपए-67,000 रुपए पे बैंड (पीबी-4) के साथ 10,000 रुपए ग्रेड पे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग में 29 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीवास्तव की उक्त आयोग में नियुक्ति, आयोग का कार्यालय समाप्त होने या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

पार्थ प्रतिम मित्रा, संयुक्त सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मई 2009

सं. ए-1-11/2006--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/6/2004-सीएस-II के द्वारा वर्ष 2003 की चयन सूची में श्री अर्जुन देव खत्री का नाम शामिल कर लिए जाने के अनुसरण में उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

के निजी सचिव (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मई 2009

सं. पीएफ/123/एनआईसी/2009/प्रशासन-I--श्री एस. रामचन्द्रन, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 123) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र--आंध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद से दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1762/एनआईसी/2008/प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतदद्वारा सुश्री उषा देओ, कर्मचारी कोड सं. 11762 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र--पुणे, में वैज्ञानिक "एफ" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 2 मई, 2009 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1739/एनआईसी/2008/प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतदद्वारा श्री धिरूमावलवन, कर्मचारी कोड सं. 1139 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र--दादर व नागर हवेली संघ शासित केन्द्र, सिलवासा में वैज्ञानिक "ई" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 23 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मई 2009

सं. 10(4)/2003-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के श्री अनिल कुमार, वैज्ञानिक "डी" को वैज्ञानिक "ई" के पद पर रु. 14,300-400-18,200/- के वेतनमान में (परिशोधन से पूर्व) पदोन्नति समीक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 22.03.2005 को बकाया वेतन के लाभ के साथ नियुक्त किया जाता है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2009

सं. ईआरबी-I/2009/3/1--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई

गई तारीख से तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 4,800/- रुपए ग्रेड पे में (संशोधित) आरबीएसएस के अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्व/श्री)	
1.	रणबीर सिंह	30.06.2009 (पूर्वाह)
2.	टी. एम. मुकुन्द	15.04.2009 (पूर्वाह)
3.	विजय सिंह	31.03.2009 (पूर्वाह)
4.	रमेश चन्द	27.04.2009 (पूर्वाह)
5.	नीलम अरोड़ा	31.03.2009 (पूर्वाह)
6.	रेमानी रोज कुंजप्पी	31.03.2009 (पूर्वाह)
7.	रीता मेहता	30.03.2009 (पूर्वाह)
8.	रंजना भाटिया	31.03.2009 (पूर्वाह)
9.	सज्जिता शर्मा	01.05.2009 (पूर्वाह)
10.	अशोक कुमार सागर	30.03.2009 (पूर्वाह)
11.	राम तेग राम	31.03.2009 (पूर्वाह)
12.	मोहिन्दर सिंह	31.03.2009 (पूर्वाह)
13.	सुरेश कुमार	30.03.2009 (पूर्वाह)
14.	प्रेमा पंगती	31.03.2009 (पूर्वाह)
15.	कलबीना बेक	31.03.2009 (पूर्वाह)
16.	प्रकाश रंजन बरूआ	30.03.2009 (पूर्वाह)
17.	ललित किशोर मंडी	08.05.2009 (पूर्वाह)

के. बी. एल. मित्तल
सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2008/14/24--सुश्री उषा वासल, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख निजी सचिव (वेतन 10,000--15,200/- संशोधनपूर्व) को 05.05.2009 के पूर्वाह से आरबीएसएसएस के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 12,000--16,500/- रुपए संशोधन पूर्व) के रूप में पदोन्नत किया गया है

के. बी. एल. मित्तल
सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी.पी.)/2006/3/4--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के 94 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 20.03.2009 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी (आई.आर.एस.एम.

ई.) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :-

2007-08 के लिए पैनेल

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. वी. एस. प्रभाकर

डी. एम. डब्ल्यू.

1. राम सिंह भाटिया

2. जॉय लाल बासु

3. सुशील कुमार शर्मा

4. सतनाम सिंह

5. संजीव गर्ग

आई.सी.एफ.

1. जी. नागराजुलु

2. एम. ई. श्रीनिवासन

3. वी. मोहन

4. के. एन. बाबू

पूर्वाक्षर रेलवे

1. एम. एन. दुबे

2. एस. के. अग्रवाल

3. जे. सी. शाही

4. टी. बी. सोनकर (अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

5. एस. एन. राम(अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर रेलवे

1. अशोक कुमार श्रीवास्तव

2. लक्ष्मण सिंह

3. रमेश कुमार तायल

4. सुभाष चन्द सौखला

5. आर. के. यादव

6. राजेश धवन

7. समीर नन्दन

8. तपन कुमार सिन्हा(अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

9. जानकी प्रसाद(अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

10. क्रिशन कुमार(अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. जे. सुरेश चन्द
2. डी. बालाजी
3. रमनलाल गाजा
4. टी. के. दीक्षित
5. प्रफुल गडकरी
6. एस. एस. यादव

आर. सी. एफ.

1. सतचिंदर सिंह

दक्षिण मध्य रेलवे

1. ई. बी. सत्यमूर्ती
2. ए. सूरी बाबू
3. डी. कृष्णामूर्ती
4. एम. प्रसाद

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. ए. बन्दोपाध्याय
2. बी. सी. बासु
3. एम. मुर्म (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पश्चिम मध्य रेलवे

1. बी. के. शर्कर

2008-09 के लिए पैनल

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

सी. एल. डब्ल्यू

1. ए. के. दास (अ. जा.)
2. पी. बी. रक्षित

मध्य रेलवे

1. के. के. गुप्ता
2. के. पी. यादव
3. बी. एस. श्रीवास्तव
4. वी. एम. दासपुत्रा
5. सी. एम. तिवारी
6. एच. आर. नायक (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

डी. एम. डब्ल्यू

1. आर. एस. गुप्ता
2. अवधेश सिंह
3. आजाद सिंह (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. धर्मवीर सिंह (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

आई. सी. एफ.

1. एम. सी. जौली
2. एन. सेन्यामरई कनन् (अ.जा.)

पूर्वोत्तर रेलवे

1. पी. के. शर्मा
2. वी. पी. सिंह
3. जय राज संदीप सिंह (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर रेलवे

1. सुनील कुमार छिन्नर
2. एस. एम. जांगीद
3. योगेन्द्र कुमार त्यागी
4. विजय अरोरा
5. एस. के. शर्मा
6. गुरुचरणजीत सिंह
7. सोम प्रकाश (अ.जा.)
8. किशन सिंह (अ.जा.)
9. संदीप मुखर्जी
10. अशोक कुमार श्रीवास्तव
11. प्रकाश चन्द (अ.जा.)
12. विनोद कुमार बंसल

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. नारायण लाल (अ.जा.)
2. राम बहोरी (अ.जा.)
3. ए. के. दीक्षित
4. पी. एन. माथुर

आर. सी. एफ.

1. ललीत किशोर
2. एन. आर. जाटव (अ.जा.)
3. चरणजीत सिंह

4. नवीन्द्र सिंह
5. बेली राम (अ.ज.जा.)(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
दक्षिण मध्य रेलवे

1. पी. गोपाल (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
2. के. वसंत कुमार

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. के. के. बी. गुप्ता
2. एस. के. सेनापती
3. जी. सरकार (अ.ज.जा.)(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. डी. के. मैत्रा
2. एस. के. महाराणा
3. के. बंदोपाध्याय
4. बी. सी. रॉय
5. बी. के. रॉय
6. जे. कुइला
7. ए. के. बागची (अ.जा.)(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
8. तपन मंडल (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पश्चिम मध्य रेलवे

1. आर. एस. राजपूत
2. एन. विश्वलाल
3. अजय श्रीवास्तव

के. बी. एल. मित्तल
सचिव, रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2009

सं. 08/2009 (फा. सं. ए-32013/5/2008-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर) में रु. 14,300--400-18,300/- के संशोधन पूर्व वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई मारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	(सर्व/श्री)	
1.	प्रदीप जंदल	20 अप्रैल 2009 (पूर्वाह)
2.	एन. एस. तनवर	20 अप्रैल 2009 (पूर्वाह)

1	2	3
3.	ए. के. भाटिया	20 अप्रैल 2009 (पूर्वाह)
4.	विरेन्द्र कुमार	20 अप्रैल 2009 (पूर्वाह)
5.	प्रदीप कुमार	21 अप्रैल 2009 (पूर्वाह)
मधुकर सूद, अवर सचिव		

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. 07/2009 (फा. सं. 5/10/2008)--राष्ट्रपति, सीएसएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के श्रेणी "ग" के नियमित आशुलिपिक श्री पी. संकरा कुमार को 13 अप्रैल, 2009 से प्रभावी एवं अगले आदेशों तक, चयन सूची वर्ष 2005 के विभागीय परीक्षा कोटे में सीसीएस (संशोधित वेतन), नियमावली, 2008 के वेतन बैंड 2/वेतन बैंड-3 में संवर्ग के अंदर नियमित आशुलिपिक श्रेणी क और ख (एकीकृत) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2009

सं. 08/2009 (फा. सं. 2/7/2009-प्रशा.11)--राष्ट्रपति, श्री हरिशंकर ब्रह्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आन्ध्र प्रदेश 1975), विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय को 12 मई, 2009 के पूर्वाह से, अगले आदेशों तक के लिए, सचिव, विद्युत मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

सं. 11/2009 (फि. सं. ए-38012/1/2008-प्रशा.1)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री तपन चटर्जी जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 अप्रैल, 2009 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 मई 2009

सं. 2/1/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, उपभोक्ता-कार्य विभाग के मौसम विज्ञान सहायक श्री अनिल कुमार को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'बी' के रूप में दिनांक 1 मई, 2009 के पूर्वाह से और अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

मोहन लाल, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 13th May 2009

No. A.22012/1/2009-PMA—The Central Deputation Tenure of Shri Indu Shekhar Chaturvedi, IAS (JH:1987) Private Secretary to Prime Minister has been approved for seven years, i.e. upto 26.09.2011.

RAJINDER SHARMA, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 15th May 2009

No. RS/6/1/2009/20-Perl.—The following officials of the Rajya Sabha Secretariat whose services were placed at the disposal of the Vice-President's Secretariat w.e.f. 11th January, 2008 for appointment as Assistant Private Secretaries to the Vice-President of India have been appointed as Senior Private Secretaries in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100+ Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the personal staff of the Hon'ble Chairman. Rajya Sabha on deputation basis, with effect from the forenoon of 1st May, 2009, until further orders :—

- (i) Shri Harish Kandpal, Senior Executive Assistant
- (ii) Shri B. Phani Sunder, Private Secretary

2. The above-said appointments are at the discretion of the present Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

CHITRA G., Executive Officer

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 24th April 2009

No. A.12019/1/2007-I—The President is pleased to appoint on promotion Dr. K. Radhakrishnan, Distinguished Scientist and Director, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space to the Apex Scale Rs. 80,000/- (Fixed) with effect from April 16, 2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 13th May 2009

No. A-19014/29/2006-Ad.I—On attaining the age of superannuation Smt. Lalitha Kumar, IAS (TN-74) presently working as Principal Adviser in this Ministry in the pay of Rs. 80,000/- (Fixed) will retire from Government Service w.e.f. the afternoon of 30.11.2009.

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 14th May 2009

No. A-19/G-A/93—The term of deputation of Shri N.K. Bar, Library & Information Officer in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with corresponding Grade Pay

of Rs. 6,600/- is hereby extended upto 31.5.2009 in the Election Commission of India on existing terms and conditions.

2. Shri N. K. Bar shall be deemed to be relieved and repatriated to his parent Ministry i.e. Ministry of Culture w.e.f. 31.05.2009 (A/N). He is directed to report to his parent Ministry on 01.06.2009.

SITA RAM, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 29th April 2009

No. A-32015/7/2005-Admn.IV(LA)—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar [Roll No. 1181, Rank No. 24, Section Officer/Steno (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005], a regular Steno Grade 'C' of CSSS cadre of this Department as Steno Grade 'A&B' (merged) on regular basis in the same department in the Pay Band PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay Rs. 4800/- w.e.f. 16th April, 2009 (F/N).

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 12th May 2009

No. A-32015/7/2005-Admn.IV(LA)—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009, the President is pleased to appoint Shri V. Ramasubramanian [Roll No. 1314, Rank No. 39, Section Officer/Steno (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005], a regular Steno Grade 'C' of CSSS cadre of this Department of Telecommunications as Steno Grade 'A&B' (merged) on regular basis in this department in the Pay Band PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay Rs. 4800/- w.e.f. 16th April, 2009 (F/N).

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 8th May 2009

No. A-32012/4/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legal Advisers and presently working as Deputy Legal Advisers on ad-hoc basis, to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade-III of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the order stated below, in the Pay Band of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 7600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 30th April, 2009 or until further orders subject to the final outcome of the writ petitions No. 4598/07 and No. 4241/08

filed by Sh. S.N. Terdal and No. 1385/08 filed by Sh. J. T. Sulaxan Rao in the Delhi High Court :—

- (i) Shri S. R. Mishra; and
- (ii) Smt. Zoya Hadke.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 8th May 2009

No. K. 11019/2/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice I.M. Qudusi, seniormost Judge of the Orissa High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Dr. Justice Balbir Singh Chauhan relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Orissa High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K. 11019/2/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rattan Chand Gandhi, seniormost Judge of the Rajasthan High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Deepak Verma relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Rajasthan High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K. 13024/1/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Periya Veedu Quadir Meeran Barkath Ali, as an Additional Judge of the Kerala High Court for a period of two years, with effect from the date he assumes charge of his office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th April 2009

No 14016/11/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay

of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) on probation for a period of two years :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
(S/Shri)			
1.	Virender Kumar	D-I-686	05-11-1954
2.	Karnal Kumar	D-I-690	03-07-1956
3.	Shakir Hasan	D-I-691	04-03-1954
4.	Narender Kumar	D-I-692	01-07-1952
5.	Jai Bhagwan	D-I-359	10-03-1957
6.	Amrik Singh	D-I-294	15-09-1952

2. The appointment of the above mentioned 6 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that the aforesaid Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 19th May 2009

No. 14016/11/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) on probation for a period of two years :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
(S/Shri)			
1.	Zile Singh	D-I-693	04-10-1954
2.	Ved Prakash	D-I-708	01-01-1955
3.	Nav Rattan	D-I-337	03-02-1955
4.	Raghubir Prasad	D-I-913	06-07-1958

2. The appointment of the above mentioned 4 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that the aforesaid Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 18th May 2009

No. I-14011/18/2008-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 12/5/2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 19/12/2008, containing the name of Shri L. T. Hrangchal (D.O.B. 01-03-1957) a State Police Service Officer of Mizoram, towards filling up one substantive vacancy in the Joint IPS AGMU Cadre during 2008.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/18/2008-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri L. T. Hrangchal (D.O.B. 01-03-1957) a member of Mizoram Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint Cadre of AGMU under Sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 5th May 2009

No. 12013/4/2007-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office Under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 6 April, 2009 (F.N.) for a period of three years or till further orders, whichever is earlier.

DHARM SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 5th May 2009

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—Consequent upon their inclusion in the Select List (SL) for the year 2005 of Central Secretariat Service (CSS) as per this Department's Office Order No. 32014/7/2006-Cadre dated 21st April 2009, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Pay Band-2 with a Grade Pay of

Rs. 4,800/- in the Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions :—

Sl. No.	Name of the Officer	Mode of appointment	Date of appointment
1.	Shri Vakhtram Damor	SQ/2005	01-07-2005
2.	Shri Edmond Xalxo	SQ/2005	01-07-2005
3.	Shri Sabiel Kindo	SQ/2005	01-07-2005

2. The above Officers will draw the pay in the grade of Section Officer with effect from the date they assume/have assumed charge of the post of Section Officer.

HARISH CHANDER, Under Secy.

The 6th May 2009

No. 20/S/613-Ad.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service in pursuance to DP&T's OM No. 5/6/2004-CS.II dated the 6th February, 2009 the President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries (ad hoc) in the Cadre of Ministry of Personnel P. G. & Pensions as regular Principal Private Secretary in the pay structure of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 6,600/- (GP) :—

Sl. No.	Name	Select List
1.	Shri S. Palaniswamy	2003
2.	Shri A. S. Bharara	2004

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 15th May 2009

No. 11019/05/2009-AIS-III—The President is pleased to direct that Smt. Cherry Malik, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of Bihar (BH : 2004) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of Rule 7(2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/09/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State

Cadre of Maharashtra, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Smt. Gunjan	2004	06-09-2006
2.	Shri Primal Singh	2004	06-09-2006
3.	Shri Vikram Kumar	2004	06-09-2006
4.	Shri Waghmare Vijay Balkrishna	2004	06-09-2006
5.	Shri Ramaswami N.	2004	06-09-2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 18th May 2009

No. 14012/08/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Hardikar Shraavan Pramod	2005	22-08-2007
2.	Shri Vipin Sharma	2005	22-08-2007
3.	Shri Rahul Ranjan Mahiwal	2005	22-08-2007

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the May 2009

No. 12018/1/2008-Admn.I—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare), namely :—

- Short title and commencement—(i) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare) Group 'C' (Technical) post Recruitment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

- Number of post, classification and scale of pay—The number of post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed hereto.
- Method of recruitment age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the schedule aforesaid.
- Disqualifications—No person—
 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
 Shall be eligible for appointment to said post:

Provided that the Central Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations regarding age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the Post	STAFF CAR DRIVER (ordinary grade)
2. Number of Posts	*One (2009) *Subject to variation dependent on work-load.
3. Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted/Non-Ministerial.
4. Scale of Pay	PB-I Rs. 5,200—20,200/- + GP Rs. 1,900/-
5. Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Not applicable

- | | | |
|--|---|--|
| 7. Age limit for direct recruitment | <p>Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p> | <p>by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</p> <p>For Ex-servicemen Deputation/re-employment.</p> |
| 8. Educational and other qualifications required for direct recruits | <p>Essential :—</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor cars</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism</p> <p>(The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle).</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years.</p> <p>(iv) Pass in 8th standard.</p> <p>Desirable :—</p> <p>(i) 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> | <p>12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption and grades from which the promotion/deputation/ absorption to be made.</p> <p>Absorption From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group D employees in the Ministry Personnel, Public Grievances & Pension who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group D employees in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 8.</p> <p>For Ex-servicemen Deputation/re-employment The Armed Forced Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forced; thereafter they may be continued on re-employment: (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p> |
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees. | Not applicable | |
| 10. Period of probation, if any | Two years. | |
| 11. Method of recruitment whether | Deputation/absorption failing which by direct recruitment. | |
| | | <p>13. If a DPC exists, what is its composition</p> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation cases).</p> <p>14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.</p> <p>Not applicable</p> |

V. K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th March 2009

No. Q/PA-I/19/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 1st March 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Shri Yogesh C. Narang	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS in the forenoon of 01-03-2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/20/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st March 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Shri Mahesh Sachdev	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS in the forenoon of 01-03-2009 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 30th March 2009

No. Q/PA-I/21/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 20th March 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Shri S. N. Ray	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS in the forenoon of 20-03-2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 1st May 2009

No. Q/PA-I/24/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Kadakath Pathrose Ernest, High Commissioner of India, New Zealand, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/22/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned officer of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 1st May 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Shri C. Gururaj Rao	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS in the forenoon of 01-05-2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 4th May 2009

No. Q/PA-I/23/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st May 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Shri Rajat Saha	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS in the forenoon of 1st May 2009 and assumed charge of the post in Grade-II of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 12th May 2009

No. Q/PA-II/6614/24/05—On attaining the age of superannuation, Shri Raghunath Mishra, First Secretary in the Embassy of India, Stockholm, retired from the Senior Scale of the Indian Foreign Service, on the afternoon of 31st October, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 13th May 2009

No. Q/PA-II/6614/9/06—On attaining the age of

superannuation, Shri Gurdip Singh Warwal, Consul in the Embassy of India, Frankfurt, retired from the Grade-I of the Indian Foreign Service (B), on the afternoon of 31st March, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th April 2009

No. 29 (F. No. A-19012/6/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri M. Satish Kumar Reddy, IRS (C & CE : 93) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 08.04.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 17th April 2009

No. 30 (F. No. A-19012/7/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Raman Chopra, IRS (IT : 93) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 08.04.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 27th April 2009

No. 31 (F. No. A-19013/04/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Satyendra Mathuria, IRS (C & CE : 01) as Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue w.e.f. 02.04.2009 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 32 (F. No. A-19013/05/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Singh, IRS (C & CE : 2004) as Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue w.e.f. 01.04.2009 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 33 (F. No. A-19013/06/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri K. S. V. V. Prasad, IRS (C&CE : 2001) as Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue w.e.f. 01.04.2009 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st May 2009

CORRIGENDA

In partial modification of this Department's Notification No. 32 (F. No. 19013/05/2009-Ad. I) dated 27th April, 2009, the date of joining of Shri Sanjeev Kumar Singh, Technical Officer, may be substituted and read as "01.04.2009 (FN)" in place of 01.04.2009 (AN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

In partial modification of this Department's Notification No. 33 (F. No. 19013/06/2009-Ad. I) dated 27th April, 2009, the date of joining of Shri K. S. V. V. Prasad, Technical Officer, may be substituted and read as "01.04.2009 (FN)" in place of 01.04.2009 (AN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 34 (F. No. A-19013/03/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Samar Nanda, IRS (C & CE : 04) as Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue w.e.f. 06.04.2009 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th May 2009

No. 5/2009 (F. No. A-32018/02/2009-Ad. IA)—In pursuance of Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O. M. No. A. 12025/6/2005-CAS dated 25th March, 2009 and DOP&T's O. M. No. 5/2/2009-CS. II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chander & Shri Sanjay Kumar (SC), Stenographers Grade 'C' of Ministry of Finance, Department of Revenue to the post of Stenographer Grade 'A & B' (Merged) of CSSS against the SL Year 2005, in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) w.e.f. 30.03.2009.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 12th May 2009

No. A-19011/15/2008-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Chawla, IAS (GJ : 73), presently Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) as Finance Secretary and Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) with effect from the afternoon of 11th May 2009 until further orders.

SAGAR MEHRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 13th May 2009

No. A-19011/291/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 18/7/2009-E-(SM. I) dated 1st May, 2009, Shri Ashok Chawla, IAS (GJ : 73), Secretary, Department of Economic Affairs has taken the additional charge of the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 1st May, 2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 8th May 2009

No. A-12023/2/2004-Ad. II—Consequent upon his transfer from the Ministry of Statistics and Programme implementation vide Order No. 12016/2/2009-SSS dated 31.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Hareeswaran K., Statistical Investigator Grade-I of the Subordinate Statistical Service as Senior Investigator in the Department of Expenditure, Ministry of Finance w.e.f. 04.05.2009 (FN) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-

S. KRISHNAMOORTHIL, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 14th May 2009

No. 9/3/2009-Admn.—In pursuance of O.M. No. A-32014/1/2009-CAS dated 30.04.2009 of Department of Expenditure read with DoPT's O.M. No. 7/5/2008-C.S.I dated 14.08.2008 and dated 31.12.2008, the President is pleased to appoint Shri K. C. Lohani, a regular Assistant of Central Secretariat Service as Section Officer (ad hoc) in the scale of Pay of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- in Pay Band PB-2 with effect from the forenoon of 12th May, 2009.

2. The Ad hoc promotion of Shri K. C. Lohani as Section Officer would initially be upto 30.06.2009 or until further orders and subject to the following terms & conditions :—

- (a) Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- (b) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through seniority quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th April 2009

No. A-12023/12/2005-Admn. IV.—On completion of his term, Justice Shri O. P. Dwivedi, relinquished the charge of the Office of Chairman, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC) in the afternoon of 31st March, 2009.

P. C. PRATHARI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 4th May 2009

No. PFG(958)/09-Ad.I—Consequent upon her qualifying the Stenographers Limited Departmental Competitive Examination, 2005 for Steno Gr. 'A & B' (Merged) of CSSS and nomination to the Ministry of Corporate Affairs vide DoPT O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint Smt. Manjeet Gupta, a regular Steno Grade 'C' of this Ministry as Steno Grade 'A and B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f the forenoon of 16.03.2009.

J. S. GUPTA, Under Secy.

No. PFG(959)/09-Ad.I—Consequent upon his qualifying the Stenographers Limited Departmental Competitive Examination, 2005 for Steno Gr. 'A & B' (Merged) of CSSS and nomination to the Ministry of Corporate Affairs vide DoPT O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Harishikesh Srivastav, a regular Steno Grade 'C' of Information and Broadcasting Ministry as Steno Grade 'A and B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f the forenoon of 20.04.2009.

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 14th May 2009

No. 1/2009. F.No. A-12022/25/2007-E.IV.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Rao, IAS (AM :87), as Development Commissioner (Joint Secretary Level) Vishakhapatnam Special Economic Zone, Vishakhapatnam under the Department of Commerce, in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/-, for a period of five years of until further orders whichever event takes place earlier with effect from 27th March, 2009 (FN).

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 11th May 2009

No. A-11016/1/2006-Admn/Estt.—Consequent upon his posting to the Ministry of Coal in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/27/2006-CS.I(D)

dated 22.02.2008, Shri Anil Kapoor is appointed as Director in the CSS Cadre in the Ministry of Coal w.e.f. the forenoon of 5th May 2009.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th May 2009

No. A-12025/15/2006-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vikas Malhotra to the post of Assistant Professor in the speciality of ENT in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of 07.12.2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/10/2005-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ravi Meher to the post of Assistant Professor in the speciality of ENT in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.09.2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 15th May 2009

No. A-12025/47/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr.(Ms.) Sharda Patra to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of the 05.03.2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 18th May 2009

No. A-12025/3/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Arun Kumar to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatric-Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation with effect from the forenoon of the 15th October, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 13th May 2009

No. A-38012/6/2008-Admn.-I—Prof. R. Sambasiva Rao, Special Director General of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.4.2009 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Director Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th May 2009

No. 4-3/2008-Extn.—The President is pleased to appoint Smt. Savita Vasisht, Assistant Extension Officer, Directorate of Extension to the post of Extension Officer, General Central Service Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- (Pre-revised) in Directorate of Extension on regular basis w.e.f. the forenoon of 26th March, 2009 until further orders.

DIMPLE VERMA, Director (Extension)

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES, NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING

Kochi-682 016, the 5th August 2008

NOTICE OF TERMINATION

Sub.: Publishing the Notice of termination of service of Shri G. Renjith, Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)] under Rule 5(1) of CCS (Temporary Service Rules) 1965—reg.

No. 6-12/2007-Adm.—Shri G. Renjith, while holding the post of Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)] at Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training, Kochi-16 unauthorisedly absented from duties w.e.f. 23-07-2007 without prior permission from the Competent Authority. In spite of repeated advice by sending Memos Shri G. Renjith has neither responded nor reported for duty. He was also informed of consequences of his continued absence by which a fair chance was given to him to comply with the instructions and report for duty. A subsequent Office Memorandum No., 6-12/2007 Adm dated 01-07-2008 in pursuance of sub-rule (I) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, giving Notice of Termination that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on, or, as the case may be, tendered to him was sent to him by Registered post with acknowledgement due, but the same was received back undelivered with the remark that "addressee out of station". As this is the case, the undersigned in exercise of his power under the sub-rule (I) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 decides to terminate the services of Shri G. Renjith, Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)] with effect from the date expiry of a period of one month from the date of publication of this Notice of Termination.

G. H. MANIKFAN, Director
Signature of the Appointing Authority

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, 6th May 2009

No. 1-1/2006/ASI/AS—On the recommendations of the Appointments Committee of the Cabinet [Department of

Personnel & Training with reference to their Order No. 4/43/2008-EO(SM.I) dated 18th February 2009], the President is pleased to appoint Shri Pravin Srivastava, IAS (MT : 80) to the post of Additional Director General, in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture in the rank and pay of Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years from date of his assumption of the charge of the said post, w.e.f. 1st May 2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 8th May 2009

No. 17016/17/2008-SCD-VI—The President is pleased to appoint Shri T. Teethan, IA&AS(83) as Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment for a period of five years with effect from 15.04.2009 or until further orders, whichever is earlier.

R.A. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 13th May 2009

No. 20013/2/2009-BC-II—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kumar Srivastava, IFS (JK : 80) as Joint Secretary in the Commission for Economically Backward Classes under the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 29th April, 2009 (Forenoon).

2. The appointment of Shri Srivastava in the said Commission will be upto the expiration of term of the Commission or until further orders, whichever is earlier.

PARTHA PRATIM MITRA, Joint Secy

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 14th May 2009

No. 1-11/2006-Estt—Consequent upon inclusion of his name in the select list for the year 2003, vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2004-CS-II dated 6th February, 2009, the President is pleased to appoint Shri Arjun Dev Khatri as Private Secretary (designated as Principal Private Secretary) of CSSS on regular basis with effect from 01/07/2003.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 15th May 2009

No. PF/123/NIC/2009-Adm-I—Shri S. Ramachandran, Scientist-F (Emp. Code : 123), National Informatics Centre, Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad, retired on superannuation from Government service with effect from the

afternoon of 30th April, 2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (Adm-I)

No. PF/1762/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. Usha Deo, Emp. Code : 1762 from the post of Scientist-F, NIC-Pune from the forenoon of 02/05/2009 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (Adm-I)

No. PF/1139/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri C. Thirumavalavan, Emp. Code : 1139 from the post of Scientist-E, NIC-Dadra & Nagar Haveli UT Centre, Silvassa from the forenoon of 23/03/2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (Adm-I)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 4th May 2009

No. 10(4)/2003-PA(TA)—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, Scientist 'D' of this Directorate as Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- (pre-revised) to give effect to the review promotion with effect from 22.03.2005 with the benefits of arrears of pay.

S. RAMAKRISHNAN, Deputy Director

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th May 2009

No. ERB-I/2009/3/1—The following Assistants of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted as Section Officers of RBSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- (revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
	S/Shri/Ms.	
1.	Ranbir Singh	30.03.2009 (FN)
2.	T. M. Mukundan	15.04.2009 (FN)
3.	Vijay Singh	31.03.2009 (FN)
4.	Ramesh Chand	27.04.2009 (FN)
5.	Neelam Arora	31.03.2009 (FN)
6.	Remani Rose Kunjappy	31.03.2009 (FN)

1	2	3
7.	Rita Mehta	30.03.2009 (FN)
8.	Ranjana Bhatia	31.03.2009 (FN)
9.	Savita Sharma	01.05.2009 (FN)
10.	Ashok Kumar Sagar	30.03.2009 (FN)
11.	Ram Teg Ram	06.05.2009 (FN)
12.	Mohinder Singh	31.03.2009 (FN)
13.	Suresh Kumar	30.03.2009 (FN)
14.	Prema Pangtey	31.03.2009 (FN)
15.	Calbina Beck	31.03.2009 (FN)
16.	Prakash Ranjan Barua	30.03.2009 (FN)
17.	Lalit Kishore Mandi	08.05.2009 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2008/14/24—Ms. Usha Vasal, Principal Private Secretary (Scale Rs. 10,000—15,200/- pre-revised) of Railway Board Secretariat Stenographer Service (RBSSS) has been promoted as Senior Principal Private Secretary of RBSSS (Scale of Rs. 12,000—16,500/- pre-revised) with effect from the forenoon of 05.05.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. E(GP)2006/3/4—The President is pleased to approve of the undermentioned 94 Group 'B' officers of Mechanical Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 20.03.2009 on the Railways mentioned against each :—

Panel For 2007-2008

Name of the Officer

S/Shri

Central Railway

1. V. S. Prabhakar

D. M. W.

1. Ram Singh Bhatia

2. Joy Lal Basu

3. Sushil Kumar Sharma

4. Satnam Singh

5. Sanjeev Garg

I. C. F.

1. G. Nagarajulu

2. M. E. Srinivasan

3. V. Mohan

4. K. N. Babu

North Eastern Railway

1. M. N. Dubey

2. S. K. Agarwal

3. J. C. Sahi

4. T. B. Sonkar (SC) Promoted against SC vacancy

5. S. N. Ram (SC) Promoted against SC vacancy

Northern Railway

1. Ashok Kumar Srivastava

2. Laxman Singh

3. Ramesh Kumar Tyal

4. Subhash Chander Sonkhala

5. R. K. Yadav

6. Rajesh Dhawan

7. Sameer Nandan

8. Tapan Kumar Sinha (SC) Promoted against SC vacancy

9. Janki Prasad (SC) Promoted against SC vacancy

10. Krishan Kumar (SC) Promoted against SC vacancy

North Western Railway

1. J. Suresh Chand

2. D. Balaji

3. Ramanlal Gajja

4. T. K. Dixit

5. Praful Gadkari

6. S. S. Yadav

R. C. F.

1. Satvinder Singh

South Central Railway

1. E. V. Satyamurthy

2. A. Suri Babu

3. D. Krishnamurthy

4. M. Prasad

South Eastern Railway

1. A. Bandopadhyay

2. B. C. Basu

3. M. Murmu (ST) Promoted against ST vacancy

West Central Railway

1. B. K. Shakur

Panel For 2008-2009

Name of the Officer

S/Shri

C. L. W.

1. A. K. Das (SC)

2. P. B. Rakshit

Central Railway

1. K. K. Gupta

2. K. P. Yadav

3. B. S. P. Srivastava

4. V. M. Dashputra

5. C. M. Tiwari

6. H. R. Naik (SC) Promoted against SC vacancy

D. M. W.

1. R. S. Gupta

2. Awadesh Singh

3. Azad Singh (SC) Promoted against SC vacancy

4. Dharambir Singh (SC) Promoted against SC vacancy

I. C. F.

1. M. C. Jolly

2. N. Senthamarai Kanan (SC)

North Eastern Railway

1. P. K. Sharma

2. B. P. Singh

3. Jai Raj Sandeep Singh (ST) Promoted against ST vacancy

Northern Railway

1. Sunil Kr. Chibbar

2. S. M. Jangid

3. Yogindra Kr. Tyagi

4. Vijay Arora

5. S. K. Sharma

6. Gurucharanjeet Singh

7. Som Prakash (SC)

8. Kishan Singh (SC)

9. Sandeep Mukherjee

10. Ashok Kumar Srivastava

11. Prakash Chand (SC)

12. Vinod Kumar Bansal

North Western Railway

1. Narayan Lal (SC)

2. Ram Bahori (SC)

3. A. K. Dixit

4. P. N. Mathur

R. C. F.

1. Lalit Kishore

2. N. R. Jatav (SC)

3. Charanjeet Singh

4. Nawinder Singh

5. Beli Ram (ST) Promoted against ST vacancy

South Central Railway

1. P. Gopal (SC) Promoted against SC vacancy

2. K. Vasanth Kumar

South East Central Railway

1. K. K. B. Gupta

2. S. K. Senapathi

3. G. Sarkar (SC) Promoted against SC vacancy

South Eastern Railway

1. D. K. Maitra

2. S. K. Maharana

3. K. Bandhopadhyay

4. B. C. Roy

5. B. K. Roy

6. J. Kuila

7. A. K. Bagchi (SC) Promoted against SC vacancy

8. Tapan Mondal (SC) Promoted against SC vacancy

West Central Railway

1. R. S. Rajput

2. N. Viswalal

3. Ajay Shrivastava

K. B. L. MITTAL, Secy./
Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 28th April 2009

No. 08/2009 (F. No. A-32013/5/2008-Adm.1)—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service (Director/Superintending Engineer) in the pre-revised scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with

effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	Pardeep Jindal	20-04-2009 (FN)
2.	N. S. Tanwar	20-04-2009 (FN)
3.	A. K. Bhatia	20-04-2009 (FN)
4.	Virender Kumar	20-04-2009 (FN)
5.	Pradeep Kumar	21-04-2009 (FN)

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

New Delhi, the 17th April 2009

No. 07/2009 (F.No. 5/10/2008)—The President is pleased to appoint Shri P. Sankara Kumar, a regular Stenographers Gr. C of the Ministry of Power Cadre of CSSS as regular Stenographers Grade A&B (merged) within the Cadre in the Pay Band-2/Pay Band-3 of CCS (Revised Pay), Rules, 2008 against Departmental Examination Quota of Select List Year 2005 with effect from 13th April, 2009, until further orders.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 12th May 2009

No. 08/09 (F. No.2/7/2009-Adm.II)—The President is pleased to appoint Shri Harishankar Brahma, IAS

(AP : 1975), Special Secretary, National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs, as Secretary, Ministry of Power, with effect from the forenoon of 12th May, 2009, until further orders.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

No. 11/2009 (File No. A-38012/1/2008-Adm.I)—Shri Tapan Chatterjee, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th April, 2009, on attaining the age of superannuation.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 5th May 2009

No. 2/1/2007-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs as Scientist 'B' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 1st May, 2009 and until further orders.

MOHAN LAL, Under Secy.